

परिशिष्ट सारणी III.11: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूहवार उधार

(राशि करोड़ रुपए)

को अग्रिम	स्टेट बैंक समूह			राष्ट्रकृत बैंक			सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक			सरकारी क्षेत्र के बैंक		
	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाजार #	3,375.22 (0.91)	4,086.16 (0.85)	21.06	8,616.43 (1.26)	12,406.83 (1.39)	43.99	1,478.33 (2.80)	2,599.76 (4.16)	75.86	13,469.98 (1.22)	19,092.75 (1.33)	41.74
2. स्थावर संपदा @	46,143.21 (12.41)	61,314.75 (12.71)	32.88	1,01,836.96 (14.93)	1,42,866.67 (15.96)	40.29	10,053.16 (19.06)	13,797.60 (22.09)	37.25	1,58,033.33 (14.29)	2,17,979.02 (15.14)	37.93
3. पण्य	-	-	-	1,227.54 (0.18)	1,695.44 (0.19)	38.12	-	-	-	1,227.54 (0.11)	1,695.44 (0.12)	38.12
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	49,518.43 (13.32)	65,400.91 (13.56)	32.07	1,11,680.93 (16.38)	1,56,968.94 (17.53)	40.55	11,531.49 (21.87)	16,397.36 (26.25)	42.20	1,72,730.85 (15.61)	2,38,767.21 (16.58)	38.23

	निजी क्षेत्र के नए बैंक			निजी क्षेत्र के पुराने बैंक			विदेशी बैंक			अनुसूचित वाणिज्य बैंक		
	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर	2005-06	2006-07	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी बाजार #	5,282.42 (2.30)	7,053.37 (2.19)	33.53	1,049.21 (1.26)	1,407.78 (1.52)	34.18	2,501.55 (2.56)	3,083.48 (2.44)	23.26	22,303.16 (1.47)	30,637.38 (1.55)	37.37
2. स्थावर संपदा @	66,980.22 (29.12)	1,04,092.80 (32.34)	55.41	12,086.46 (14.57)	15,441.82 (16.62)	27.76	24,953.84 (25.58)	33,176.24 (26.26)	32.95	2,62,053.85 (17.28)	3,70,689.88 (18.71)	41.46
3. पण्य	-	-	-	154.74 (0.19)	500.91 (0.54)	223.71	31.64 (0.03)	10.36 (0.01)	-67.26	1,413.92 (0.09)	2,206.71 (0.11)	56.07
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	72,262.64 (31.42)	1,11,146.17 (34.53)	53.81	13,290.58 (16.02)	17,350.50 (18.68)	30.55	27,487.03 (28.17)	36,270.08 (28.71)	31.95	2,85,770.93 (18.84)	4,03,533.97 (20.37)	41.21

- : शून्य / नाप्य
 # : पूंजी बाजार जोखिम में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।
 @ : स्थावर संपदा जोखिम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।
 दिष्णी : कोष्ठकों के आंकड़ें कुल ऋण तथा अग्रिम से संबंधित बैंक समूह का प्रतिशत दर्शाते हैं।
 स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।